

प्रेस - नोट दिनांक 25.09.2021

थाना - आँवला, जिला - बरेली ।

भूमि विकास बैंक के A.T.M. को काटने वाले व उ0नि0 श्री प्रवीण कुमार को गोली मारकर घायल करने वाले अभियुक्तों में से दूसरा अभियुक्त अजहर अली गिरफ्तार ।

कस्बा आँवला जिला बरेली में दिनांक 13/14.07.2021 की रात्रि में भूमि विकास बैंक के नीचे चौराहे पर लगे ATM को गैस कटर से काटते समय रात्रि गश्त में निकले उ0नि0 श्री प्रवीण कुमार द्वारा बदमाशों को रोके जाने पर बदमाशों द्वारा गोली मारकर गम्भीर रूप से घायल कर दिया गया तथा उ0नि0 का मोबाईल फोन को लूट कर भाग गये थे । उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना आँवला पर मु0अ0स0 303/2021 धारा 379/511/427/394/333/353/307/120B भा0द0वि0 पंजीकृत किया गया । उक्त घटना के अनावरण हेतु श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय बरेली द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय आँवला के पर्यवेक्षण में गठित की गई टीम एवम् प्रभारी निरीक्षक आँवला के नेतृत्व में निरीक्षक अपराध थाना आँवला द्वारा उक्त घटना का खुलासा कर अभि0 रामभरोसे को गिरफ्तार कर पूर्व में जेल भेजा जा चुका है एवं उक्त घटना के मुख्य अभि0 अजहर अली उर्फ हीरो पुत्र नौशे अली उर्फ ननसार अली नि0 चारमीनार टाकिज के पास वार्ड न0-12 कस्बा ककराला थाना अलापुर जिला बदायूं को आज मुखबिर की सूचना पर ट्रेन के माध्यम से रेलवे स्टेशन आँवला से बरेली जाने की फिराक में जाते समय डिग्री कालेज के पास से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की गई है।

घटना का संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 13/14.07.2021 की रात्रि में भूमि विकास बैंक के नीचे चौराहे पर लगे ATM को गैस कटर से काटते समय रात्रि गश्त में निकले उ0नि0 श्री प्रवीण कुमार द्वारा बदमाशों को रोके जाने पर बदमाशों द्वारा गोली मारकर गम्भीर रूप से घायल कर दिया गया तथा उ0नि0 का मोबाईल फोन को लूट कर भाग गये थे । उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना आँवला पर मु0अ0स0 303/2021 धारा 379/511/427/394/333/353/307/120B भा0द0वि0 पंजीकृत किया । उक्त घटना में अभियुक्त रामभरोसे उपरोक्त को गिरफ्तार कर 15/08/2021 को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा जा चुका है, आज अभि0 अजहर उर्फ हीरो को गिरफ्तार कर अग्रिम आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गयी ।

गिरफ्तारशुदा मुल्जिमान का तरीका वारदात:-

आरोपी द्वारा अपने साथियों के साथ रैकी कर बैंक एटीएम को गैस कटर आदि से काटकर ले जाना ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. अजहर अली उर्फ हीरो पुत्र नौशे अली उर्फ ननसार अली नि0 चारमीनार टाकिज के पास वार्ड न0-12 कस्बा ककराला थाना अलापुर जिला बदायूं ।

गिरफ्तार अभि0 का अपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 303/21 धारा 394/379/511/427/307/333/353/120B भादवि ।
2. थाना दुर्गापल्ली जिला बैंगलूर राज्य तमिलनाडू से एटीएम काटने वर्ष 2015 में जेल गया है ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. निरीक्षक अपराध श्री वेद प्रकाश गुप्ता थाना आँवला जिला बरेली ।
2. उ0नि0 श्री वेद सिंह थाना आँवला जिला बरेली ।
3. का0 1241 विशांत कुमार थाना आँवला जिला बरेली ।
4. का0 2686 रोहित कुमार थाना आँवला जिला बरेली ।
5. का0 3392 अमित कुमार थाना आँवला जिला बरेली ।